

**शिमला भास्कर**

चंडीगढ़, वीरवार 5 अक्टूबर, 2006

## दीप प्रज्ज्वलित...

शिमला के होटल होली-डे-होम में सूचना से समाधान कार्यक्रम का शुभारंभ करती ऊर्जामंत्री विद्या स्टोक्स।



**शिमला भास्कर**

चंडीगढ़, वीरवार 5 अक्टूबर, 2006

## हल होंगी किसानों की समस्याएं

भास्कर न्यूज. शिमला

होटल होली डे होम में मंगलवार को किसानों के लिए 'एक फोन सेवा सूचना से समाधान' सर्विस एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री विद्या स्टोक्स ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस प्रोग्राम का उद्देश्य किसान समुदाय को फोन के जरिये उनकी समस्या का समाधान करना है। इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल अभी शुरूआती चरण में यह सुविधा 6 महीने के लिए शिमला व सोलन जिले के 100 गांव के लिए प्रदान करेगा।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसानों को 022-39116000/011 417 305 73/74 नंबर पर अपना प्रश्न पूछने के लिए डायल करना होगा या फिर जिलों में ब्लॉक समन्वयक के माध्यम से प्रश्न पूछ सकेंगे।



# हिमाचली किसान मुंबई से लेंगे ज्ञान

आईएसएपी ने चलाई 'सूचना से समाधान' योजना, स्टोक्स ने किया लांच

दिव्य हिमाचल ब्यूरो ♦ शिमला हिमाचल के किसानों को अब मुंबई फोन करके अपने खेतों संबंधी जानकारीयां मिल सकेंगी। इस सिलसिले में 'इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स' (आईएसएपी) ने प्रदेश के किसानों के लिए 'सूचना से समाधान' स्कीम चलाई है। इस स्कीम को ऊर्जा मंत्री विद्या स्टोक्स ने बुधवार को विधिवत लांच किया। फिलवक्त यह योजना शिमला और सोलन के किसानों को उपलब्ध होगी। उसके बाद हिमाचल के दूसरे जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। मुंबई से किसानों को यह जानकारी फोन नंबर 022-39 111



शिमला : 'सूचना से समाधान' योजना की लांचिंग के दौरान उपस्थित मुख्यातिथि व ऊर्जा मंत्री विद्या स्टोक्स

600 पर उपलब्ध होगी। किसान टेलीफोन करके अपना प्रश्न इस फोन

## ऐसे होगी बात

संस्था ने इन दोनों जिलों में अपने ब्लाक को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, जिनके पास मोबाइल दिए गए हैं। इन मोबाइल के जरिए वे किसानों को मुंबई से जोड़ेंगे और इन्हीं फोनों के जरिए उन्हें जानकारीयां भी मिल सकेंगी। संस्था के प्रबंधकों के मुताबिक बाद में किसान को-ऑर्डिनेटरों को फोन करके मुंबई के लिए कॉल्स भी ट्रांसफर कर पाएंगे।

नंबर पर छोड़ेगा। उसे उसी समय प्रश्न नंबर वहां से दिया जाएगा। 24 घंटे के बाद उसे उसका उत्तर दोबारा फोन करने पर मिलेगा। यह उत्तर उसे 24 घंटे के भीतर भी मिल सकेगा। संस्था का मानना है कि जानकारी व ज्ञान के अभाव में किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाते। प्रबंधकों का कहना है

कि जहां भी 'सूचना से समाधान' ने जिस पहल की शुरुआत की है, वहां यह योजना काफी सकारात्मक रही है। सेवा प्रदान करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। इस सेवा को उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सहज बनाया जाएगा। संस्था बाद में इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पंजीकरण और रोजगार जैसे जटिल क्षेत्रों को भी जानकारीयों के प्रदान के लिए व्यवहार में लाएगा। इस मौके पर विद्या स्टोक्स ने कहा कि जहां हिमाचल ने कृषि और बागबानी क्षेत्र में काफी तरक्की की है, वहीं आज भी प्रदेश की विस्तार विंग बहुत कमजोर है। विस्तार विंग से जुड़े लोग मार्केटिंग की तरफ ध्यान देते हैं।

अजीत समाचार, जालन्धर

वीरवार, 5 अक्टूबर, 2006



शिमला में सूचना से समाधान कार्यक्रम में भाग लेती हुई ऊर्जा मंत्री विद्या स्टोक्स। (छाया : ललित)

पंजाब कैमरी

वीरवार, 5 अक्टूबर 2006



शिमला : हटल होलीडे होम में आयोजित कार्यशाला 'सूचना से समाधान' की अध्यक्षता करती ऊर्जा मंत्री विद्या स्टोक्स। .....(छाया : नरेश)